



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



मेधावी छात्राओं के हाथ रही जनपद की कमान, बनीं एक दिन की कप्तान... पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर जानी पुलिस की कार्यप्रणाली ..

उ0प्र0 सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से मिशनशक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को सम्मानित करते हुये स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा उनके परिजनों से वार्ता कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये शुभकामनायें दी गयीं।

इसी क्रम में मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बारहवीं में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं- कोमल, मुस्कान कौशल, शिल्पी, नैन्सी शिवहरे को क्रमशः एक दिन का कप्तान बनाया गया, जिसमें कप्तान बनी छात्राओं द्वारा फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व समस्या निराकरण के लिये सम्बन्धित को आदेशित भी किया गया,

इस अवसर पर छात्राओं को पुलिस कार्यालय की कार्यप्रणाली से परिचित कराते हुये पुलिस कार्यालय में अवस्थित विभिन्न कार्यालयों के कार्यों को विस्तार से बताते हुये सम्पूर्ण परिसर का भ्रमण कराया गया,

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय, प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार तथा सम्मानित छात्रायें बारहवीं टॉपर-कोमल, मुस्कान कौशल, शिल्पी, नैन्सी शिवहरे तथा दसवीं टॉपर- आशी यादव, अंशिता रिछारिया, भावना गोस्वामी व उनके अभिभावक मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



- ➔ जुमे की नमाज के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त
- ➔ सभी मस्जिदों पर मजिस्ट्रेट सहित पर्याप्त पुलिस बल की लगायी गयी ड्यूटी
- ➔ समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा लगातार भ्रमणशील रहते हुए सर्व समुदाय के धर्मगुरुओं से किया जा रहा वार्तालाप
- ➔ शांति व सद्भाव बनाए रखने की जा रही अपील
- ➔ सोशल मीडिया पर लगातार शरारती तत्वों पर रखी जा रही पैनी नजर
- ➔ अफवाह/भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही

आज दिनांक 24.06.2022 को जुमे की नमाज के दृष्टिगत सभी मस्जिदों पर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के नेतृत्व में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिदों पर जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमणशील रहते हुए सर्व समुदाय के धर्मगुरुओं से वार्तालाप कर शांति व सद्भाव बनाए रखने की अपील की जा रही है किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दें, पुलिस चुस्ती व मुस्तैदी से अपना काम करेगी पुलिस द्वारा हर कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के अमल में लाई जाएगी।

जनपदीय मीडिया सेल टीम द्वारा भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट व वीडियो बयान जारी करने, साजिश रचने व माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वाले शरारती तत्वों के

विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आमजन से अपील की जा रही है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, महोबा पुलिस शांति व सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस